



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 2006/माघ 14, 1927

No. 39]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 2006/MAGHA 14, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2006

**सा.का.नि. 44(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्य) भर्ती नियम, 2006 है।  
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : (1) उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं। (2) ये पद केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी संगठित सेवा के कैडर का भाग नहीं होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. शिथिल करने की शक्ति :

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

5. व्यावृत्ति :

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है	सेवा में लोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. अध्यक्ष	01 (2006)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अननुसर्चिवीय	26000रु (नियत)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	पर्सिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन्हें प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	
11	12	
प्रतिनियुक्ति/आमेलन	प्रतिनियुक्ति/ आमेलन :	
	(i) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो 24050-26000रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त किए गए हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की अर्हता सेवा की है ; या	

- (ii) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी, जो 24050-26000रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त किए गए हैं और जिन्होंने 24050-26000रु. और 22400-24500रु. के वेतनमानों में नियमित आधार पर दो वर्ष सम्मिलित सेवा की है ; और जिनके पास निम्नलिखित आवश्यक अर्हताएं हैं :-
- (i) केन्द्रीय सरकार में प्रत्यक्ष कर प्रशासन चलाने का कम-से-कम बीस वर्ष का अनुभव और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की संरचनाओं के क्षेत्र में कम-से-कम दस वर्ष का अनुभव ;
- (ii) उच्च वृत्तिक गुणवत्ता और उत्कर्ष ; और
- (iii) सत्यनिष्ठा की अखंडनीय प्रतिष्ठा ।
- टिप्पण - आवेदन की अंतिम तारीख को 56 वर्ष की अधिकतम आयु की सामान्य पात्रता की शर्त आमेलन के मामलों में लागू नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

13

14

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

लागू नहीं होता ;

तथापि, निम्नलिखित संरचना वाली चयन समिति केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पद पर नियुक्त किए जाने वाले पात्र अधिकारियों का चयन करेगी ।

(i) मंत्रिमंडल सचिव - अध्यक्ष

(ii) प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव - सदस्य

(iii) गृह सचिव - सदस्य

(iv) सचिव (कार्मिक), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य

(v) सचिव, राजस्व विभाग - सदस्य ।

टिप्पण - चयन समिति अभ्यर्थियों का निर्धारण करने का उपाय तय करेगी ।

1	2	3	4	5	6	7
2. सदस्य	06 (2006)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	24050- 650- 26000रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रतिनियुक्ति/ आमेलन	प्रतिनियुक्ति/ आमेलन :
	<p>केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो 22400-24500रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त किए गए हैं ;</p> <p>और जिनके पास निम्नलिखित आवश्यक अर्हताएं हैं :-</p> <p>(i) केंद्रीय सरकार में प्रत्यक्ष कर प्रशासन चलाने का कम-से-कम पंद्रह वर्ष का अनुभव और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की संरचनाओं के क्षेत्र में कम-से-कम दस वर्ष का अनुभव ;</p> <p>(ii) उच्च वृत्तिक गुणवत्ता और उत्कर्ष ; और</p> <p>(iii) सत्यनिष्ठा की अखंडनीय प्रतिष्ठा ।</p> <p>टिप्पण - 1. आवेदन की अंतिम तारीख को 56 वर्ष की अधिकतम आयु की सामान्य पात्रता की शर्त आमेलन के मामलों में लागू नहीं होगी ।</p> <p>2. ऐसा कोई व्यक्ति जिसने शिक्ते होने की तारीख को, जिसके लिए चयन किया जा रहा है, एक वर्ष से कम अवशिष्ट सेवा की है, विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होगा ।</p>

13	14
<p>लागू नहीं होता ;</p> <p>तथापि, निम्नलिखित संरचना वाली चयन समिति केंद्रीय सरकार द्वारा इस पद पर नियुक्त किए जाने वाले पात्र अधिकारियों का चयन करेगी ।</p> <p>(i) मंत्रिमंडल सचिव - अध्यक्ष</p> <p>(ii) प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव - सदस्य</p> <p>(iii) गृह सचिव - सदस्य</p> <p>(iv) सचिव (कार्मिक), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य</p> <p>(v) सचिव, राजस्व विभाग - सदस्य ।</p> <p>टिप्पण - 1. मंत्रिमंडल सचिव केंद्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड के अध्यक्ष को चयन समिति की बैठकों के लिए सहयोजित कर सकेंगा ।</p> <p>2. चयन समिति अभ्यर्थियों का निर्धारण करने का उपाय तय करेगी ।</p>	<p>संग लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।</p>

[फा. सं. 50/130/2001-प्रशा. I]

प्रीती पंत, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Revenue)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd February, 2006

**G.S.R. 44(E).**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Chairman and Members of the Central Board of Direct Taxes in the Department of Revenue under the Ministry of Finance, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Board of Direct Taxes (Chairman and Members) Recruitment Rules, 2006. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of posts, classification and scale of pay. - (1) The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules. (2) These posts shall not form part of the cadre of any organized Service under the Central Government.
3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.
4. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
5. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

2889/2006-2

## SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Scale of Pay.	Whether selection-cum-seniority or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Chairman	01(2006)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 26,000/- (fixed).	Selection.	Not applicable.

(1).

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualification for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment – whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of posts to be filled in by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation/absorption

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)	(14)
Deputation/absorption: (i) Officers of the Central Government appointed on a regular basis in the grade of Rs. 24,050-26,000/- with 2 years of qualifying service in the grade; OR (ii) Officers of the Central Government appointed on a regular basis in the grade of Rs. 24,050 - 26,000/- with 2 years of combined regular service in the grades of	Not applicable;  However, a Selection Committee with the following composition shall recommend selection of eligible officers to be appointed to this post by the Central Government:  (i) Cabinet Secretary - Chairman; (ii) Principal Secretary to Prime Minister - Member;	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

<p>Rs. 24,050 - 26,000/- and Rs. 22,400-24,500/-;</p> <p>AND possessing the following essential qualification:-</p> <p>(i) Having at least 20 years of experience in administering and running the direct tax administration in the Central Government with at least 10 years of experience in the field formations of Central Board of Direct Taxes;</p> <p>(ii) Having high professional merit and excellence; and</p> <p>(iii) Having impeccable reputation of integrity.</p> <p>Note: The normal eligibility conditions of maximum age of 56 years on the date of closing of applications shall not be applicable in cases of absorption.</p>	<p>(iii) Home Secretary - Member;</p> <p>(iv) Secretary (Personnel) Department of Personnel and Training - Member;</p> <p>(v) Secretary, Department of Revenue - Member;</p> <p>Note: The Selection Committee may devise ways to assess candidates</p>	
---	--	--

  

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2). Member	06 (2006)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministrial.	Rs. 24,050-650-26,000.	Selection.	Not applicable.

  

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation/absorption.

(12)	(13)	(14)
<p><b>Deputation/Absorption:</b></p> <p>(i) Officers of the Central Government appointed on a regular basis in the grade of Rs. 22,400 - 24,500/-</p> <p>AND possessing the following essential qualifications:-</p> <p>(i) Having at least 15 years of experience in administering and running the direct tax administration in the Central Government with at least 10 years of experience in the field formations of Central Board of Direct Taxes;</p> <p>(ii) Having high professional merit and excellence; and</p> <p>(iii) Having impeccable reputation of integrity.</p> <p><b>Note:</b> 1. The normal eligibility conditions of maximum age of 56 years on the date of closing of applications shall not be applicable in cases of absorption.</p> <p>2. No person with less than 1 year residual service on the date of occurrence of vacancy for which selection is being made shall be eligible for consideration.</p>	<p>Not applicable;</p> <p>However, a Selection Committee with the following composition shall recommend selection of eligible officers to be appointed to this post by the Central Government.</p> <p>(i) Cabinet Secretary - Chairman;</p> <p>(ii) Principal Secretary to Prime Minister - Member;</p> <p>(iii) Home Secretary - Member;</p> <p>(iv) Secretary (Personnel Department of Personnel and Training - Member;</p> <p>(v) Secretary, Department of Revenue - Member.</p> <p><b>Note:</b></p> <p>1. The Cabinet Secretary may co-opt Chairman, Central Board of Direct Taxes for Selection Committee meetings.</p> <p>2. The Selection Committee may devise ways to assess candidates.</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission not necessary</p>
		<p>[F. No. 50/130/2001-Ad. I]</p> <p>PREETI PANT, Under Secy.</p>



## अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2006

**सा.का.नि. 45(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्य) भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : (1) उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं। (2) ये पद केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी संगठित सेवा के कैंडर का भाग नहीं होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. शिथिल करने की शक्ति :

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

5. व्यावृत्ति :

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

288 47/2006-3

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा अवयव पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का प्रायद्वितीय सिविल सेवा (पेंशन) निग्रम, 1972 के नियम 3C के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. अध्यक्ष	01 (2006)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अननुसंधितीय	26000 रु. (नियत)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	पर्सनल की अवधि, यदि कोई हो।
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	
11	12	
प्रतिनियुक्ति/आमेलन	प्रतिनियुक्ति/ आमेलन :	
	(i) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो 24050-26000 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त किए गए हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की अर्हता सेवा की है ; या	

(ii) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो 24050-26000 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त किए गए हैं और जिन्होंने 24050-26000 रु. और 22400-24500 रु. के वेतनमानों में नियमित आधार पर दो वर्ष सम्मिलित सेवा की है ;  
और जिनके पास निम्नलिखित आवश्यक अर्हताएं हैं :-  
(i) केन्द्रीय सरकार में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन चलाने का कम-से-कम बीस वर्ष का अनुभव और केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड का संरचनाओं के क्षेत्र में कम-से-कम दस वर्ष का अनुभव ;  
(ii) उच्च वृत्तिक गुणवत्ता और उत्कर्ष ; और  
(iii) सत्यनिष्ठा की अखंडनीय प्रतिष्ठा ।  
टिप्पण - आवेदन की अंतिम तारीख को 56 वर्ष की अधिकतम आयु की सामान्य पात्रता की शर्तें आमेलन के मामलों में लागू नहीं होंगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना					भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।	
13					14	
<p>लागू नहीं होता ;  तथापि, निम्नलिखित संरचना वाली चयन समिति केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पद पर नियुक्त किए जाने वाले पात्र अधिकारियों का चयन करेगी ।</p> <p>(i) मंत्रिमंडल सचिव - अध्यक्ष  (ii) प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव - सदस्य  (iii) गृह सचिव - सदस्य  (iv) सचिव (कार्मिक), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य  (v) सचिव, राजस्व विभाग - सदस्य ।</p> <p>टिप्पण - चयन समिति अभ्यर्थियों का निर्धारण करने का उपाय तय करेगी ।</p>					संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।	
1	2	3	4	5	6	7
2. सदस्य	05 (2006)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसूचित	24050- 650- 26000रू.	चयन	लगू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रतिनियुक्ति/ आमेलन	प्रतिनियुक्ति/ आमेलन :  केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो 22400-24500 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त किए गए हैं ; और जिनके पास निम्नलिखित आवश्यक अर्हताएं हैं :- (i) केन्द्रीय सरकार में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन चलाने का कम-से-कम पंद्रह वर्ष का अनुभव और केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड की संरचनाओं के क्षेत्र में कम-से-कम दस वर्ष का अनुभव ; (ii) उच्च वृत्तिक गुणवत्ता और उत्कर्ष ; और (iii) सत्यनिष्ठा की अखंडनीय प्रतिष्ठा । टिप्पण - 1. आवेदन की अंतिम तारीख को 56 वर्ष की अधिकतम आयु की सामान्य पात्रता की शर्त आमेलन के मामलों में लागू नहीं होगी । 2. ऐसा कोई व्यक्ति जिसने रिक्ति होने की तारीख को, जिसके लिए चयन किया जा रहा है, एक वर्ष से कम अवशिष्ट सेवा की है, विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होगा ।

13	14
लागू नहीं होता ; तथापि, निम्नलिखित संरचना वाली चयन समिति केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पद पर नियुक्त किए जाने वाले पात्र अधिकारियों का चयन करेगी । (i) मंत्रिमंडल सचिव - अध्यक्ष (ii) प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव - सदस्य (iii) गृह सचिव - सदस्य (iv) सचिव (कार्मिक), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य (v) सचिव, राजस्व विभाग - सदस्य । टिप्पण - 1. मंत्रिमंडल सचिव केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड के अध्यक्ष को चयन समिति की बैठकों के लिए सहयोजित कर सकेगा । 2. चयन समिति अन्यार्थियों का निर्धारण करने का उपाय तय करेगी ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. 50/130/2001-प्रशा. I]

प्रीती पंत, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2006

**G.S.R. 45(E)**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Chairman and Members of the Central Board of Excise and Customs in the Department of Revenue under the Ministry of Finance, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Board of Excise and Customs (Chairman and Members) Recruitment Rules, 2006. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of posts, classification and scale of pay. - (1) The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules. (2) These posts shall not form part of the cadre of any organized Service under the Central Government.
3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.
4. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
5. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

288 G1/2006-4

## SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Scale of Pay.	Whether selection or selection-cum-seniority or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1). Chairman	01 (2006)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 26,000/- (fixed).	Selection.	Not applicable.

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualification for direct recruits.	Whether a age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of pro mottees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment – whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of posts to be filled in by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation/Absorption.

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)	(14)
Deputation/Absorption: (i) Officers of the Central Government appointed on a regular basis in the grade of Rs. 24,050-26,000/- with 2 years of qualifying service in the grade; OR	Not applicable; However, a Selection Committee with the following composition shall make selection of eligible officers to be appointed to this post by the Central Government.	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary

<p>(ii) Officers of the Central Government appointed on a regular basis in the grade of Rs. 24,050-26,000/- with 2 years of combined regular service in the grades of Rs. 24,050-26,000/- and Rs. 22,400-24,500/-;</p> <p>AND possessing the following essential qualification:-</p> <p>(i) Having at least 20 years of experience in administering and running the indirect tax administration in the Central Government with at least 10 years of experience in the field formations of Central Board of Excise and Customs.</p> <p>(ii) Having high professional merit and excellence; and</p> <p>(iii) Having impeccable reputation of integrity.</p> <p>Note: The normal eligibility conditions of maximum age of 56 years on the date of closing of applications shall not be applicable in cases of absorption.</p>	<p>(i) Cabinet Secretary (ii) Principal Secretary to Prime Minister (iii) Home Secretary (iv) Secretary (Personnel) Department of Personnel and Training (v) Secretary, Department of Revenue - Chairman; - Member; - Member; - Member; - Member; - Member.</p> <p>Note: The Selection Committee may devise ways to assess candidates.</p>	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2).	Member	05 (2006)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 24,050-650-23,000/-	Selection. Not applicable.
(7)	Not applicable.	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation/Absorption.	

(12)	(13)	(14)
<p>Deputation/Absorption</p> <p>(i) Officers of the Central Government appointed on a regular basis in the grade of Rs. 22,400 - 24,500/-</p> <p>AND possessing the following essential qualification:-</p> <p>(i) Having at least 15 years of experience in administering and running the indirect tax administration in the Central Government with at least 10 years of experience in the field formations of Central Board of Excise and Customs.</p> <p>(ii) Having high professional merit and excellence; and</p> <p>(iii) Having impeccable reputation of integrity.</p> <p>Note:</p> <p>1. The normal eligibility conditions of maximum age of 56 years on the date of closing of applications shall not be applicable in cases of absorption.</p> <p>2. No person with less than 1 year residual service on the date of occurrence of vacancy for which selection is being made shall be eligible for consideration.</p>	<p>Not applicable;</p> <p>However, a Selection Committee with the following composition shall make selection of eligible officers to be appointed to this post by the Central Government.</p> <p>(i) Cabinet Secretary - Chairman;</p> <p>(ii) Principal Secretary to Prime Minister - Member;</p> <p>(iii) Home Secretary - Member;</p> <p>(iv) Secretary (Personnel) Department of Personnel and Training - Member;</p> <p>(v) Secretary, Department of Revenue - Member.</p> <p>Note:</p> <p>1. The Cabinet Secretary may co-opt Chairman, Central Board of Excise and Customs for Selection Committee meetings.</p> <p>2. The Selection Committee may devise ways to assess candidates.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>
		<p>[F. No. 50/130/2001-Ad. I]</p> <p>PREETI PANT, Under Secy.</p>